



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 26

8 अप्रैल 2011

संख्या 14

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ ₹)

मद	2010	2011		घट-बढ़	
	2 अप्रैल	25 मार्च	1 अप्रैल #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	7,87,266	9,42,124	9,33,741	-8,383	1,46,474
संचलन में नोट	7,87,252	9,42,107	9,33,728	-8,379	1,46,476
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	17	13	-4	-2
जमा राशियां					
केंद्र सरकार	101	6,293	100	-6,193	-1
बाजार स्थिरीकरण योजना	2,737	—	—	—	-2,737
राज्य सरकार	115	41	42	1	-72
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	3,36,511	3,19,163	4,06,551	87,388	70,040
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	4,151	3,494	4,082	588	-69
अन्य बैंक	14,222	15,284	16,772	1,488	2,550
अन्य	12,112	12,260	12,694	434	582
अन्य देयताएं	3,17,365	3,61,350	3,68,811	7,461	51,446
कुल देयताएं / आस्तियां	14,74,579	16,60,009	17,42,793	82,785	2,68,214
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	11,50,979	12,23,178	12,29,076	5,898	78,097
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	81,188	1,00,041	1,02,572	2,531	21,384
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	2,24,403	3,21,758	3,95,669	73,912	1,71,267
ऋण और अग्रिम					
केंद्र सरकार	—	—	—	—	—
राज्य सरकारें	208	729	610	-119	402
नाबाई	—	—	—	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1,169	5,031	5,115	84	3,946
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	30	—	-30	—
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	28	504	908	404	880
खरीदे और भुनाए गए बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	2,750	1,320	1,320	—	-1,430
अन्य आस्तियां	13,854	7,418	7,523	105	-6,332

- (1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गई राशियां और विदेशी शेयरों/बांडों में किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश भी शामिल है।
 (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है।
 (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	1 अप्रैल 2011 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2011 की समाप्ति पर		दिसंबर 2010 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर	करोड़ ₹	मिलि. अम. डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भंडार	13,63,997	305,486	7,777	2,004	2,983	668	31,643	8,152	1,04,157	26,390
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां +	12,27,960	275,019	5,898	1,321*	3,077	689	27,883	7,205	78,109	20,289
(ख) स्वर्ण \$	1,02,572	22,972	2,531	829	—	—	1,886	502	21,384	4,986
(ग) विशेष आहरण अधिकार @	20,344	4,556	-3,018	-676	-57	-13	-2,409	-522	-2,232	-445
(घ) आइएमएफ में प्रारक्षित अंश की स्थिति**	13,121	2,939	2,366	530	-37	-8	4,283	967	6,896	1,560

+ आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया ₹ 1,116 करोड़ / 250 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश छोड़कर।

* अ.डॉ. के रूप में दर्शाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में भंडार में रखी गई अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में प्रारक्षित स्थिति अर्थात् प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) जिसे 23 मई 2003 से 26 मार्च 2004 तक ज्ञापन मद के रूप में दिखाया गया है उसे अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के अनुसार 2 अप्रैल 2004 को समाप्त सप्ताह से भंडार में शामिल किया गया है।

@ इसमें सामान्य आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 3,082.5 मिलियन एसडीओर (4,883 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशिष्ट आवंटन के अन्तर्गत आवंटित 214.6 मिलियन एसडीओर (340 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समतुल्य) शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः 28 अगस्त 2009 और 9 सितंबर 2009 को किया गया।

\$ इसमें ₹ 31,463 करोड़ (6,699 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 नवम्बर 2009 को खरीदे गए 200 मेट्रिक टन सोने को परिलक्षित करता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	25 मार्च 2011 को बकाया #	निम्नलिखित की तुलना में घटबढ़				
		परखाड़े में	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2009-2010	2010-2011	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	71,688	1,276	16,076	6,757	16,076	6,757
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	29,567	5,324	2,871	-2,790	2,871	-2,790
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	7,133	-34	-15,795	1,156	-15,795	1,156
अन्य के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां	52,04,703	64,333	6,58,716	7,11,877	6,58,716	7,11,877
		(1.3)	(17.2)	(15.8)	(17.2)	(15.8)
मांग	6,39,022	40,043	1,22,525	-6,588	1,22,525	-6,588
मीयादी	45,65,681	24,290	5,36,191	7,18,465	5,36,191	7,18,465
उधार ⁽³⁾	1,31,665	2,422	-9,658	27,387	-9,658	27,387
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	3,42,352	7,624	21,900	12,932	21,900	12,932
रिजर्व बैंक से उधार	5,031	1,003	-11,686	4,989	-11,686	4,989
रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं जमा शेष	3,49,323	6,484	48,492	42,355	48,492	42,355
पास में नकदी	30,160	679	5,297	4,582	5,297	4,582
रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	3,19,163	5,805	43,195	37,773	43,195	37,773
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	54,882	910	9,512	-7,538	9,512	-7,538
मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16,348	2,320	2,630	-1,320	2,630	-1,320
बैंकों को अग्रिम	11,591	3,372	6,989	1,699	6,989	1,699
अन्य आस्तियां	65,139	9,147	-7,257	20,676	-7,257	20,676
निवेश⁽⁵⁾	15,00,039	4,797	2,18,342	1,15,287	2,18,342	1,15,287
		(0.3)	(18.7)	(8.3)	(18.7)	(8.3)
सरकारी प्रतिभूतियों में	14,95,467	4,633	2,22,609	1,17,072	2,22,609	1,17,072
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	4,572	164	-4,267	-1,786	-4,267	-1,786
बैंक ऋण	39,38,659	82,593	4,69,239	6,93,871	4,69,239	6,93,871
		(2.1)	(16.9)	(21.4)	(16.9)	(21.4)
खाद्य ऋण	64,283	-1,790	2,278	15,793	2,278	15,793
खाद्येतर ऋण	38,74,376	84,383	4,66,960	6,78,077	4,66,960	6,78,077
ऋण, क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	37,90,471	77,732	4,46,481	6,68,313	4,46,481	6,68,313
देशी बिल - खरीदे गए	13,494	350	299	1,480	299	1,480
भुनाए गए ⁽⁶⁾	79,721	3,886	19,061	17,503	19,061	17,503
विदेशी बिल - खरीदे गए	18,606	-114	-2,390	2,473	-2,390	2,473
भुनाए गए	36,368	738	5,787	4,102	5,787	4,102
नकद-जमा अनुपात	6.71					
निवेश-जमा अनुपात	28.82					
ऋण-जमा अनुपात	75.68					

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधारों को छोड़कर। (2) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना संभव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्य के प्रति देयताएं' की तदनुसूची मदों में शामिल कर लिया गया है। (3) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और एफिजम बैंक से इतर। (4) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (5) इस सारणी में दिए गए निवेश सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिए गए अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (6) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनःभुनाए गए बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संबंधित अवधि में घटबढ़ प्रतिशत दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयनों के प्रभाव शामिल हैं।

4. आरक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत प्रति वर्ष)

मद / सप्ताहांत	2010	2011					
	26 मार्च	18 फरवरी	25 फरवरी	4 मार्च	11 मार्च	18 मार्च	25 मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.75	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
बैंक दर	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आधार दर ⁽²⁾	11.00/12.00	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50	8.25/9.50
जमा दर ⁽³⁾	6.00/7.50	8.25/9.50	8.25/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50	7.75/9.50
मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) ⁽⁴⁾	3.71	6.81	6.77	6.91	6.83	7.11	7.58

(1) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित आरक्षित नकदी निधि अनुपात। (2) 1 जुलाई 2010 से पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित आधार दर। पहले के आंकड़ों का संबंध बेचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से है। (3) जमा दर प्रमुख बैंकों की एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों से संबंधित है। (4) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है। मांग मुद्रा दर (भारकित औसत) सप्ताह (शनिवार से शुक्रवार) के लिए दैनिक मांग मुद्रा दर का मात्रा - भारकित औसत है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाँडों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

मद	2010 - 2011			2009 - 2010		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2010	2011		2009	2010	
	26 मार्च	25 मार्च		27 मार्च	26 मार्च	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	32,44,788	39,38,659	6,93,871 (21.4)	27,75,549	32,44,788	4,69,239 (16.9)
क. खाद्य ऋण	48,489	64,283	15,793	46,211	48,489	2,278
ख. खाद्येतर ऋण	31,96,299	38,74,376	6,78,078 (21.2)	27,29,338	31,96,299	4,66,960 (17.1)
2. निवेश	1,18,071	1,46,942	28,871	1,06,417	1,18,071	11,654
क. वाणिज्यिक पत्र	25,188	12,624	-12,565	20,001	25,188	5,187
ख. निम्न (क+ख) द्वारा जारी शेयर	30,106	41,352	11,246	27,829	30,106	2,277
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	4,625	8,981	4,356	2,769	4,625	1,856
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	25,481	32,371	6,890	25,060	25,481	422
ग. निम्न (क+ख) द्वारा जारी बांड/ डिबेंचर	62,777	92,967	30,190	58,587	62,777	4,190
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	22,710	26,858	4,148	25,456	22,710	-2,746
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	40,067	66,109	26,042	33,131	40,067	6,936
3. कुल (1ख+2)	33,14,370	40,21,319	7,06,949 (21.3)	28,35,755	33,14,370	4,78,615 (16.9)
ज्ञापन मदें :						
में निवेश						
क. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी लिखतें	52,887	47,638	-5,249	37,035	52,887	15,853
ख. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी लिखतें	32,597	31,385	-1,212	32,585	32,597	12
ग. अन्यो द्वारा जारी बांड / डिबेंचर	30,902	44,403	13,502	31,073	30,902	-172

टिप्पणी: 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाज़िर और वायदा प्रीमिया

विदेशी मुद्रा	2011					वार्षिक वृद्धि (+) / ह्रास (-) (प्रतिशत)				
	28 मार्च	29 मार्च	30 मार्च	31 मार्च	1 अप्रैल +	28 मार्च	29 मार्च	30 मार्च	31 मार्च	1 अप्रैल +
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी डॉलर	44.78	44.67	44.77	44.65		—	0.92	0.38	1.10	
यूरो	62.96	63.09	63.02	63.24		—	-3.93	-3.59	-4.24	
फेडाई की सांकेतिक दरें (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)										
अमरीकी { खरीद	44.7750	44.6800	44.7600	44.6400		—	0.87	0.38	1.10	
डॉलर { बिक्री	44.7850	44.6900	44.7700	44.6500		—	0.87	0.38	1.10	
पौंड { खरीद	71.6275	71.6300	71.6750	71.9050		—	-5.93	-5.74	-5.43	
स्टर्लिंग { बिक्री	71.6600	71.6650	71.7125	71.9275		—	-5.94	-5.74	-5.40	
यूरो { खरीद	62.9350	63.0825	62.9900	63.2225		—	-3.97	-3.57	-4.18	
{ बिक्री	62.9600	63.1200	63.0100	63.2475		—	-3.97	-3.57	-4.18	
100 येन { खरीद	54.8050	54.7075	53.9925	54.0050		—	-11.05	-10.11	-10.34	
{ बिक्री	54.8375	54.7400	54.0300	54.0300		—	-11.08	-10.09	-10.34	
अमरीकी डॉलर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमिया (प्रतिशत वार्षिक)										
1 - माह	8.31	8.06	7.10	6.99						
3 - माह	7.77	7.61	7.10	6.99						
6 - माह	7.32	7.16	6.83	6.85						

+ बाजार बंद।

— पिछले वर्ष के तदनुसंगी दिन बाजार बंद।

टिप्पणी: 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टॉक : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2010	2011	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2009-2010		2010-2011		2010		2011	
	31 मार्च #	25 मार्च #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम३	56,02,731	64,96,747	63,564	1.0	8,07,183	16.8	8,94,016	16.0	8,18,007	17.1	8,94,752	16.0
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	7,67,492	9,19,342	-2,422	-0.3	1,05,765	15.9	1,51,850	19.8	1,04,348	15.6	1,48,127	19.2
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	7,17,970	7,13,735	41,807	6.2	1,25,214	21.3	-4,234	-0.6	1,34,258	23.2	-167	—
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा	41,13,430	48,60,111	25,110	0.5	5,76,187	16.3	7,46,681	18.2	5,78,825	16.4	7,48,819	18.2
(iv) रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,839	3,559	-930	-20.7	17	0.3	-280	-7.3	576	11.5	-2,028	-36.3
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	16,69,186	18,93,375	11,491	0.6	3,51,833	27.5	2,24,189	13.4	3,79,694	30.4	2,64,209	16.2
(क) रिजर्व बैंक	2,11,586	3,16,389	3,316	—	1,09,313	—	1,04,803	—	1,38,047	—	1,45,496	—
(ख) अन्य बैंक	14,57,600	15,76,986	8,175	0.5	2,42,521	19.9	1,19,386	8.2	2,41,647	19.9	1,18,712	8.1
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	34,91,409	42,10,131	83,597	2.0	4,79,584	15.9	7,18,722	20.6	4,83,660	16.1	7,15,654	20.5
(क) रिजर्व बैंक	1,328	1,760	190	—	-9,298	—	432	—	-6,612	—	-2,762	—
(ख) अन्य बैंक	34,90,081	42,08,371	83,407	2.0	4,88,882	16.3	7,18,290	20.6	4,90,272	16.3	7,18,415	20.6
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	12,81,469	13,70,410	-8,838	-0.6	-72,712	-5.4	88,942	6.9	-64,312	-4.8	90,938	7.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	11,270	12,586	—	—	1,215	12.1	1,316	11.7	1,215	12.1	1,316	11.7
(v) बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं जिनमें से : रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	8,50,602	9,89,754	22,687	2.3	-47,262	-5.5	1,39,152	16.4	-17,749	-2.1	1,77,364	21.8
	3,01,615	3,62,849	-8,152	-2.2	-76,835	-19.8	61,234	20.3	-79,095	-20.3	51,754	16.6

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

8. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2011		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2010-2011		2011-2012		2010		2011	
	31 मार्च #	1 अप्रैल #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आरक्षित मुद्रा	13,76,770	13,77,712	81,519	6.3	1,699	0.1	942	0.1	2,27,886	24.5	2,20,327	19.0
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	9,49,521	9,46,314	-8,379	-0.9	-1,027	-0.1	-3,207	-0.3	1,07,072	15.5	1,47,792	18.5
(ii) रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमा	4,23,509	4,27,405	89,465	26.5	2,585	0.7	3,896	0.9	1,26,162	55.2	72,522	20.4
(iii) रिजर्व बैंक के पास “अन्य” जमा	3,740	3,993	434	12.2	141	3.7	253	6.8	-5,347	-57.3	13	0.3
स्रोत (i+ii+iii+iv-v)												
(i) रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण : उसमें से - केंद्र को	3,95,436	3,96,368	79,979		10,339		932		2,08,745		1,74,443	
	3,94,035	3,95,801	80,099		10,250		1,766		2,09,575		1,73,969	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - उसमें से: बैंकों को	7,324	7,324	458		—		—		-17,697		4,827	
(नाबार्ड सहित)	5,159	5,159	54		—		—		-5,386		3,990	
(iii) रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां *	13,28,553	13,31,631	8,429	0.6	201	—	3,077	0.2	-48,207	-3.8	99,481	8.1
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	12,586	12,586	—	—	—	—	—	—	1,215	12.1	1,316	11.7
(v) रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	3,67,128	3,70,196	7,347	2.0	8,841	2.9	3,068	0.8	-83,830	-21.3	59,740	19.2

* 20 मार्च 2009 से आइआइएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित बांडों में किया गया निवेश शामिल है।

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो/रिवर्स रिपो की नीलामी

(करोड़ ₹)

चलनिधि समायोजन सुविधा (तारीख)	रिपो अवधि (दिन)	रिपो (बढ़ाना)					रिवर्स रिपो (घटाना)					चलनिधि में की गई निवल वृद्धि (+)/कमो(-) (6-11)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		कट-ऑफ दर (%)		
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 मार्च 2011	1	40	56,900	40	56,900	6.75	—	—	—	—	—	56,900	
28 मार्च 2011 \$	1	26	30,945	26	30,945	6.75	4	665	4	665	5.75	30,280	–87,180
29 मार्च 2011	1	39	55,805	39	55,805	6.75	—	—	—	—	—	55,805	
29 मार्च 2011 \$	1	29	35,140	29	35,140	6.75	1	610	1	610	5.75	34,530	–90,335
30 मार्च 2011	1	37	44,845	37	44,845	6.75	1	100	1	100	5.75	44,745	
30 मार्च 2011 \$	1	31	42,120	31	42,120	6.75	3	1,150	3	1,150	5.75	40,970	–85,715
31 मार्च 2011	5	33	46,960	33	46,960	6.75	—	—	—	—	—	46,960	
31 मार्च 2011 \$	5	40	59,485	40	59,485	6.75	1	440	1	440	5.75	59,045	–1,06,005

@ रिपो को घटकर। \$ द्वितीय एलएएफ।

‘—’ : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

टिप्पणी: 8 मई 2009 से सामान्यतया रिपोरिंग शुक्रवार को द्वितीय एलएएफ (एसएलएएफ) आयोजित किया जा रहा है। चलनिधि को सुगम बनाने के उपाय के रूप में एसएलएएफ को 8 अप्रैल 2011 तक की अवधि के लिए दैनिक आधार पर अस्थायी रूप से आयोजित किया जा रहा है।

10. भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ ₹)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			भा.रि. बैंक पर न्यागमन	कुल निर्गम (8+9+10)	भारत औसत मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य						
				प्रतियोगी	अप्रतियोगी		प्रतियोगी	अप्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011													
7 जुलाई	9 जुलाई	2,000	81	8,361	500	24	2,000	500	—	2,500	98.69	5.3653	63,000
6 अक्टू.	8 अक्टू.	4,000	64	7,411	500	45	4,000	500	—	4,500	98.44	6.3977	59,279
5 जन.	7 जन.	4,000	85	10,008	500	40	4,000	500	—	4,500	98.27	7.1027	62,859
30 मार्च	31 मार्च	5,000	83	10,973	752	58	5,000	752	—	5,752	98.22	7.3105	70,345
182-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011													
7 जुलाई	9 जुलाई	1,500	42	2,747	300	30	1,500	300	—	1,800	97.27	5.7771	21,800
13 अक्टू.	15 अक्टू.	2,000	46	3,434	—	21	1,000	—	—	1,000	96.73	6.8225	20,300
5 जन.	7 जन.	1,500	50	5,332	—	14	1,500	—	—	1,500	96.53	7.2954	20,500
30 मार्च	31 मार्च	2,000	56	8,739	—	20	2,000	—	—	2,000	96.41	7.4894	22,001
364-दिवसीय खजाना बिल													
2010-2011													
14 जुलाई	16 जुलाई	1,000	61	5,460	—	14	1,000	—	—	1,000	94.66	5.6903	45,614
6 अक्टू.	8 अक्टू.	2,000	57	4,531	42	33	2,000	42	—	2,042	93.67	6.8564	42,644
12 जन.	14 जन.	1,000	48	3,969	—	8	1,000	—	—	1,000	93.08	7.5012	42,610
23 मार्च	25 मार्च	3,000	94	10,703	—	20	3,000	—	—	3,000	92.93	7.6404	42,482

टिप्पणी: 1. 91 दिवसीय खजाना बिलों हेतु 6 नवम्बर 1998 को एकसमान मूल्य नीलामी का प्रारंभ हुआ। नीलामी का फॉर्मेट 11 दिसम्बर 2002 से बहु मूल्य नीलामी में परिवर्तित किया गया है।

2. 2 जून 1999 से प्रभावी 364 दिवसीय खजाना बिलों के मामले में नीलामी में अप्रतियोगी बोलियों की अनुमति दी गई है।

3. कट-ऑफ कीमत पर निहित लाभ को वास्तविक /364 दिवस के आधार पर गिनती करने की प्रथा को 27 अक्टूबर 2004 को नीलामी से वास्तविक /365 दिवस की गिनती की प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास नकद जमा शेष

(करोड़ ₹)

1	दिनांक													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26 मार्च	27 मार्च	28 मार्च	29 मार्च	30 मार्च	31 मार्च	1 अप्रैल	2 अप्रैल	3 अप्रैल	4 अप्रैल	5 अप्रैल	6 अप्रैल	7 अप्रैल	8 अप्रैल
8 अप्रैल 2011 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निष्ठा अपेक्षाएँ	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828	3,26,828
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी शेष	3,27,109	3,27,109	3,48,170	3,58,553	3,58,730	4,03,072	4,06,971							

टिप्पणी: ये आंकड़े पखवाड़े के दौरान भा.रि. बैंक के पास संचयी आधार पर रखी गई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद जमा शेष के हैं।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
9 अप्रैल 2010	3,41,830	21,791	4.35 — 8.95
2 जुलाई 2010	3,42,362	44,167	5.92 — 7.05
8 अक्टूबर 2010	3,44,158	38,285	6.36 — 8.26
14 जनवरी 2011	3,71,881	44,019	7.18 — 9.82
11 फरवरी 2011	4,07,862	51,151	8.15 — 10.15
25 फरवरी 2011	4,18,524	40,177	9.72 — 10.60

@ प्रभावी वार्षिक ब्याज दर सीमा प्रतिवर्ष।

13. कंपनियों द्वारा जारी किए गए वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ ₹)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अप्रैल 2010	83,165	12,207	3.85 — 8.40
15 जुलाई 2010	1,07,755	11,680	6.02 — 8.75
15 अक्टूबर 2010	1,32,093	35,490	6.50 — 10.00
15 जनवरी 2011	98,913	22,908	6.60 — 11.95
15 फरवरी 2011	1,03,726	14,536	6.30 — 12.30
28 फरवरी 2011	1,01,291	9,670	6.32 — 13.05

@ पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू प्रतिरूपी प्रभावी वार्षिक बढ़ा दर का परास।

14. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 2004-05=100)

मद	भार	2010	2011		निम्नलिखित पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		20 मार्च	22 जन. *	19 मार्च #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य @	100.00	..	..	..	..	..	..	..
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	165.7	196.9	187.2	-0.4	—	12.4	13.0
(i) फल और सब्जियां	3.84	140.1	210.9	163.1	-0.9	1.2	17.9	16.4
ईंधन और विद्युत	14.91	140.1	151.9	158.5	0.4	4.0	13.1	13.1
विनिर्मित उत्पाद @	64.97	..	..	..	..	..	..	..
(i) चीनी, खांडसारी और गुड़	2.09	..	..	..	..	..	..	..
(ii) खाद्य तेल	3.04	..	..	..	..	..	..	..
(iii) सीमेंट और चूना	1.39	..	..	..	..	..	..	..
(iv) लोहा और सेमिस	1.56	..	..	..	..	..	..	..

* अद्यतन उपलब्ध अंतिम आंकड़े।

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

@ आंकड़ों को प्रति माह जारी किया जाता है।

15. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2010	2011				
	1 अप्रैल	28 मार्च	29 मार्च	30 मार्च	31 मार्च	1 अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	17692.62	18943.14	19121.01	19290.18	19445.22	19420.39
एसएंडपी सीएनएक्स निफ्टी (3.11.1995=1000)	5290.50	5687.25	5736.35	5787.65	5833.75	5826.05

16. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त *

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह						
	18 फर. 2011	25 फर. 2011	4 मार्च 2011	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिए गए उधार	8,863	13,746	11,834	8,374	13,542	8,828	10,860
ख) दिए गए ऋण	9,366	14,263	12,106	8,673	13,873	8,970	11,066
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिए गए उधार	503	516	272	299	331	156	206
ख) दिए गए ऋण	—	—	—	—	—	14	—
3. कुल							
क) लिए गए उधार	9,366	14,263	12,106	8,673	13,873	8,984	11,066
ख) दिए गए ऋण	9,366	14,263	12,106	8,673	13,873	8,984	11,066

टिप्पणी: 1. ये आंकड़े सप्ताह भर की दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

* इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेन के 90-95 प्रतिशत का शुमार हो जाता है।

2. 6 अगस्त 2005 से बैंक और प्राथमिक व्यापारी पात्र सहभागी हैं।

17. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य)@

(करोड़ ₹)

मद	समाप्त सप्ताह					
	25 फर. 2011	4 मार्च 2011	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	86,006	75,963	92,333	80,440	58,086	64,501
ख) राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	1,591	1,724	2,211	2,701	1,931	3,708
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	7,453	5,796	7,365	5,501	6,401	5,331
घ) 182 - दिवसीय खजाना बिल	474	1,041	2,663	1,076	2,061	610
ङ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	1,841	2,735	2,295	2,362	2,442	2,177
II. भारतीय रिजर्व बैंक *	5,388	516	—	—	158	—

@ रिपो लेनदेन को छोड़कर।

* भार.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

18. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी \$)

स्थिति की तारीख	वणिज्य						अंतर बैंक					
	एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई			एफ सी वाई / आइ एन आर			एफ सी वाई / एफ सी वाई		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	अदला बदली	वायदा	हाजिर	अदला बदली	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
14 मार्च 2011	3,377	1,495	474	324	1,436	1,020	6,101	7,990	1,780	4,297	1,772	355
15 मार्च 2011	3,011	1,928	820	177	951	646	8,369	8,280	1,485	3,255	1,510	272
16 मार्च 2011	3,561	1,125	974	234	838	540	7,128	8,950	1,935	3,634	1,319	295
17 मार्च 2011	2,773	1,448	779	174	1,109	651	7,427	10,957	1,628	3,857	2,078	475
18 मार्च 2011	4,200	1,333	1,574	138	1,049	694	7,811	9,985	2,652	3,224	1,510	543
बिक्री												
14 मार्च 2011	3,200	1,864	432	340	1,406	964	6,138	7,437	2,097	3,279	1,804	342
15 मार्च 2011	2,499	2,244	593	184	986	698	7,780	8,322	1,749	3,163	1,432	300
16 मार्च 2011	3,552	1,659	604	235	855	493	7,635	8,538	1,617	3,583	1,268	316
17 मार्च 2011	3,207	1,869	551	235	1,064	644	7,567	10,827	1,248	3,785	1,909	519
18 मार्च 2011	3,112	3,867	464	196	1,034	692	7,394	10,291	3,015	3,210	1,461	551

एफ सी वाई = विदेशी मुद्रा ।

आइ एन आर = भारतीय रुपया ।

टिप्पणी: ये आंकड़े वणिज्य और अंतर बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

19. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ ₹)

	समाप्त सप्ताह					
	25 फरवरी 2011	4 मार्च 2011	11 मार्च 2011	18 मार्च 2011	25 मार्च 2011	1 अप्रैल 2011
1	2	3	4	5	6	7
राशि	783.78	278.05	703.90	484.21	3,069.74	373.82

स्रोत: भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

20. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ ₹)

धारक	1 अप्रैल 2011					कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल				कुल (2+3+4+5)	सप्ताह में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	182 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7	8
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	—	—
बैंक	—	26,548	6,031	10,840	43,419	2,341	—
राज्य सरकारें	1,15,450	9,336	500	351	1,25,636	-3,995	14,148
अन्य	2,158	34,461	15,470	31,290	83,379	1,318	-19

21. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार : 2011-2012

(अंकित मूल्य करोड़ ₹ में)

	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2011-2012 (1 अप्रैल 2011 तक)	2010-2011 (2 अप्रैल 2010 तक)	2010-2011	2011-2012 (1 अप्रैल 2011 तक)	2010-2011 (2 अप्रैल 2010 तक)	2010-2011
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल	—	—	4,37,000	—	—	3,25,414
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन* बिक्री	—	—	11,575	—	—	—
खरीद	—	—	78,799	—	—	—

* भारिबैं.के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

22. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य)*

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	25 मार्च 2011 को समाप्त सप्ताह			1 अप्रैल 2011 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **		राशि	परिपक्वता आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक **	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. तत्काल (आउटराइट) लेन देन						
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2011-12	57	7.6751	7.7075	135	7.2606	7.7082
2012-13	192	7.4838	7.6397	1,545	7.4737	7.6157
2013-14	258	7.6552	7.6915	238	7.5781	7.6562
2014-15	26	7.6541	7.9700	125	7.6541	7.8581
2015-16	602	7.9190	7.9609	1,399	7.8660	7.9414
2016-17	10	8.0791	8.0791	6	7.9571	7.9571
2017-20	2,180	7.7913	8.0904	1,764	7.4581	8.3792
2020-21	713	7.9701	8.1042	1,073	7.9701	8.0761
2021 से आगे	25,006	8.0278	8.4200	25,965	5.8693	10.2454
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	965	8.3155	8.4652	1,854	7.1544	8.4663
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिन तक	882	6.2748	7.2481	401	4.5089	6.8496
ख) 15 - 91 दिन	3,246	6.7713	7.3105	2,699	6.4197	7.2510
ग) 92 - 182 दिन	484	7.2000	7.3499	109	7.1072	7.4000
घ) 183 - 364 दिन	841	7.5600	7.6288	850	7.4499	7.5999
II. भा.रि.बैं. * : बिक्री	80			—		
: खरीद	77			— +		
III. रिपो लेनदेन * (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम	राशि	दरें (% वार्षिक) न्यूनतम	दरें (% वार्षिक) अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	67,926	1.00 (1)	8.40 (15)	31,212	5.75 (1)	9.50 (15)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	87	6.70 (1)	6.74 (1)	100	6.80 (1)	6.90 (1)
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	14,920	1.75 (1)	6.85 (3)	7,897	6.50 (1)	9.00 (5)
4. 182 - दिवसीय खजाना बिल	2,485	6.15 (3)	6.90 (3)	787	6.80 (1)	9.00 (5)
5. 364 - दिवसीय खजाना बिल	4,222	5.10 (1)	6.85 (3)	357	6.50 (1)	7.00 (1)
IV. भा.रि.बैं. * : रिपो * ^	3,53,275	—	6.75	3,72,200	—	6.75
: रिवर्स रिपो !	8,580	—	5.75	2,965	—	5.75

@ भा.रि.बैं. के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना में 'वेन इश्यूड' लेनदेन शामिल है।

* भा.रि.बैं. के क्रय एवं विक्रय में अन्य कार्यालयों में लेनदेन एवं राज्य सरकारों एवं अन्य की ओर से किए गये लेनदेन शामिल हैं।

** न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) गैर मानक समूह (₹ 5 करोड़ से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

* कारोबार का पहला चरण (फस्ट लेग) दर्शाता है।

^ दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो नीलामी से संबंधित आंकड़े (देखें सारणी 9)।

! चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रिपो नीलामी शामिल है।

+ इसमें विशेष बाजार परिचालन के अंतर्गत के तेल मार्केटिंग कम्पनियों की ₹ शून्य (अंकित मूल्य) के भारत सरकार के विशेष बॉण्ड (तेल बॉण्ड) का क्रय शामिल है।

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े रिपो अवधि दर्शाते हैं।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाए।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अनंतिम

उपयुक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में क्रमशः ₹ 800 और ₹ 2,000

तथा विदेश में क्रमशः 50 अमरीकी \$ और 125 अमरीकी \$ है।

श्रीमती महुआ रॉय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और ऑनलुकर प्रेस, 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित और भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 से प्रकाशित, संपादक श्रीमती महुआ रॉय।